

July 13, 2021

BSE Limited The National Stock Exchange of India Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra Kurla Complex,

Dalal Street, Mumbai-400001 Bandra (E), Mumbai-400051

Ref: Indus Towers Limited (534816/ INDUSTOWER)

Sub: Newspaper advertisement regarding 15th Annual General Meeting (AGM) of the Company

Dear Sir/ Madam,

Further to our intimation dated July 12, 2021, and pursuant to the provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose the copies of newspaper advertisement confirming completion of dispatch of Notice of 15th (Fifteenth) AGM and Integrated Report & Annual Accounts 2020-2021 of the Company electronically to the eligible shareholders, published today i.e., on July 13, 2021, in the following newspapers:

- 1. Mint in English; and
- 2. Hindustan in Hindi

The above information is also available on the website of the Company at www.industowers.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Indus Towers Limited (formerly Bharti Infratel Limited)

Samridhi Rodhe Company Secretary

Encl: As above







Demand for health, 'Consumption boost will wellness goods in staples high: Cargill

Suneera Tandon suneera.t@livemint.com **NEW DELHI**

argill India Pvt. Ltd, which sells edible oils under the Sweekar, NatureFresh and Gemini brands, said it is expanding its healthy edible oil portfolio and baking range as in-home con $sumption\, of food\, continues\, to$ remain high during the covid-19 pandemic.

Health through food is becoming a little less negotiable in the minds of the consumers, said Piyush Patnaik, managing director, Cargill oil business in India. "Over the last few quarters, we have relaunched our NatureFresh Acti-Heart and doubled our footprint on our Gemini Rice Bran business. We are also expanding our olive oil portfolio," Patnaik said.

Demand for specialized ingredients such as fats and

baking powder has grown as consumers are experimenting with cooking at home, he said. Rath "Our

Vanaspati oil is finding huge traction in many parts of India for making traditional dishes and sweets at home that they were

earlier probably consuming outside," he added. Baking products such as NatureFresh Professional Lite (fat) have seen a surge in

demand on the back of increased in-home cooking. So, in both—within the health and wellness space and

in the home indulgent spacewe are making further additions," he added.

Cargill sells branded oils

पत्रांक-957/उ॰आ॰वि॰/विज्ञप्ति/भर्ती/2021-22



In-home consumption of food continues to remain high during the pandemic.

through more than 200,000 outlets in India. The company competes with Marico's Saffola and Adani Wilmar's Fortune cooking oils.

In-home consumption rose after the coronavirus outbreak last year, benefiting companies that sell flour, pulses, spices, tea, snacks, cookies and edible oils.

In the last quarter, however, demand for sta-Health through ples was largely "normal", Patnaik food is becoming a little less

"We didn't see negotiable for any demand dis-**Indians: Piyush** ruption during Patnaik, MD of second Cargill India oil biz wave. So, from June onwards, we are seeing a reasonable better situation on

> demand all across," he said. Cargill's oils business draws half of its sales from the retail or branded consumer edible oil business, while the other half from the business-to-business sales, which comprises sales to large restaurants,

foods companies. Meanwhile, demand from restaurants and the food services industry remained slow.

उत्तराखण्ड आयर्वेद विश्वविद्यालय

रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)-248001

विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में प्रोफेसर पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रकाशित

विज्ञाप्त निरस्तिकरण/नवीन विज्ञाप्त सूचना

विज्ञप्ति संख्या 1212 दिनांक 05 अगस्त, 2017 के क्रम में संशोधित विज्ञप्ति

संख्या 3145 दिनांक 11 फरवरी, 2020 को निरस्त करते हुये नवीन विज्ञप्ति के

माध्यम से प्रोफेसर पद हेतु दिनांक 02 अगस्त, 2021 को अपरान्ह 05:00 बजे

तक इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

विस्तृत विवरण वेबसाईट www.uau.ac.in पर उपलब्ध है।

hotels and large packaged

India will emerge as one of the largest global markets, says Gautam Adani

create a \$15 tn economy'

kalpana.p@livemint.com

MUMBAI espite disruptions due to the

covid pandemic, middle-class consumption will help create a \$15 trillion Indian economy in two decades, Adani group chairman Gautam Adani said, dismissing doubts on whether the government's \$5 trillion target is achievable.

"India will be \$5 trillion, and then go on to be a \$15 trillion-plus economy over the next two decades. India will emerge as one of the largest global markets, both in terms of consumption size and market cap," he told shareholders at the annual general meeting of Adani Enterprises on

"History has shown that out of every pandemic crisis, there emerge several learnings—and I believe that India and the world are wiser as we go through this pandemic," he said.

Adani also slammed reports about the company's shareholding that hammered stocks of group companies, adding that the group's focus is on creating long-term sustainable value.

"Recently, a few media houses indulged in reckless and irresponsible reporting

IN FY21, the

portfolio was more than ₹32,000 crore

related to administrative actions of regulators. This caused unexpected fluctuations in the market prices of Adani stocks. Unfortunately, some of our small investors were affected by this twisted narrative in which some commentators and journalists

seemed to imply that companies have regulatory powers over their shareholders and that companies can compel disclosure. In the long term, such diversions will not impact us," he said.

In 2020-21, the consolidated Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) of the group's listed portfolio was more than ₹32,000 crore: a

pan India Public Awareness Campaigns.

Important Dates:

(https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/)

Bid Start Date: Monday, July 12, 2021 at 1600 hrs

Bid Close Date: Monday, August 02, 2021 at 1500 hrs

भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

NVITATION OF BIDS FOR EMPANELMENT OF MEDIA

BUYING/ADVERTISING AGENCIES FOR RBI'S PUBLIC AWARENESS CAMPAIGN

Department of Communication (DoC), Reserve Bank of India (RBI)

9th Floor, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Marg

Fort, Mumbai - 400001, invites proposals for empanelment of Media Buying/Advertising Agencies for RBI's multi-media, multi-lingual,

The bidders intending to participate in the tendering

process should submit their bids online as per the Tender Document, which may be downloaded from 'Tenders' section

on RBI website (https://rbi.org.in) and MSTC website

Tender Start View Date: Monday, July 12, 2021 at 1600 hrs

Bid Opening Date and Time: August 02, 2021 at 1600 hrs

Note: Any further Addenda/Corrigenda/extension of dates

Clarifications/Responses to bidders' queries in respect of the

above tender shall be posted on Bank's website (<u>www.rbi.org.in</u>)

Don't get cheated by E-mails/SMSs/Calls promising you money

only and no separate notification shall be issued in the press



All the Adani stocks generated returns over 100%, and our businesses ensured that we returned close to ₹9,500 crore to equity shareholders, said Gautam Adani.

year-on-year growth of 22%.

"All the Adani stocks generated returns over 100%—and our businesses ensured that we returned close to ₹9,500 crore to you, our equity shareholders. This is a 166% increase in profit after tax on a yearon-year basis," Adani said.

GROWTH METRICS THE share of APSEZ consolidated Ebitda in India's port-based of the group's listed cargo biz rose to 25%;

ADANI Green Energy has reached its renewables target of 25GW, a full four years ahead of schedule container segment share grew to 41%

GE POWER INDIA LIMITED

Registered Office: Unit No 211-212, 2nd Floor, The Capital

umbai - 400051 | **Tel. No.:** T +91 22 45407200 ; F +91 22 45407203

INFORMATION REGARDING 29th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the members of the Company that due to

continuing COVID-19 pandemic, the 29th Annual General Meeting

('AGM') of GE Power India Limited ('the Company') will be held or

Tuesday, 10 August 2021 at 04:00 p.m. through video conferencing

('VC') or through other audio visual means ('OAVM') to transact the

business that will be set forth in the 29th AGM notice, in compliance

with circular no. 20/2020 dated 5 May 2020 and in its continuation the

General Circular No. 02/2021 dated 13 January 2021 issued by the

Ministry of Corporate Affairs ('MCA') read with the applicable provision:

In compliance with the relevant laws and circulars, the Notice of the

AGM and the standalone and consolidated financial statements for FY

2020-21, along with Board's Report, Auditors' Report and othe

documents required to be attached thereto, will be sent to all the

Members of the Company whose email addresses are registered

with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company

(www.ge.com/in/ge-power-india-limited), on the website of the Stock

(a) Members holding shares in physical mode, who have not

registered / updated their email addresses with the Company are requested to register / update the same by clicking or

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or by writing to the Company with details of folio number and attaching

a self-attested copy of PAN card at in.investor-relations@ge.com or to

(b) Members holding shares in dematerialised mode, who have no

registered / updated their email addresses with their Depository

Participants, are requested to register / update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their dema-

Members are requested to register / update their complete bank details (a) with their Depository Participant(s) with whom they maintain thei

demat accounts, if shares are held in dematerialised mode by submitting the requisite documents. Details in a form prescribed by your Depository Participant may also be required to be furnished, OR

(b) with the Company / KFinTech by emailing at in.investorrelations@ge.com or einward@kfintech.com, if shares are held in

physical mode, by submitting (i) scanned copy of the signed request

letter which shall contain member's name, folio number, bank details

(Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICF

details), (ii) self-attested copy of the PAN card and (iii) cancelled

The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members

holding shares in dematerialised mode, physical mode and for

members who have not registered their email addresses has been

provided in the Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular

instructions for joining the AGM, manner of casting vote through

By order of the Board

Company Secretary & Compliance Officer

Kamna Tiwari

Place: Gurugram

Date: July 12, 2021

 $remote\,e\text{-}voting\,or\,e\text{-}voting\,during\,the\,AGM.$

Place: Noida

Date: 12 July 2021

Manner of registering mandate for receiving Dividend:

G Block, Plot No. C-70, Bandra Kurla Complex, Bandra East

of the Companies Act, 2013 and other laws / circulars

Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com)

Manner of registering / updating email addresses:

 $KF in Tech \, at \, \underline{einward.ris@kfintech.com}$

Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) has become an integrated ports and logistics company. In FY21, it crossed a landmark after its share of India's port-based cargo business rose to 25% and the container segment market share grew to 41%. It also added LNG & LPG businesses to the Mundra portfolio and LNG operations to Dhamra. "No other company in the world runs a port business

of such scale and reach," he said. Adani Green Energy became the largest solar company in the world in 2020. Last month, following the acquisition of SB Energy's 5GW portfolio at an enterprise valuation of about \$3.5 billion, the com-

> pany has hit its renewables target of 25GW, a full four years ahead of schedule.

Through Adani Enterprises, the group also entered airports. Today, one of every four air passengers in India transits through an Adani airport. "No airport business in

any large country has achieved a 25% share of the total passenger traffic. The company also took over operations of airports in Ahmedabad, Lucknow and Mangalore, signed concession agreements for Guwahati, Jaipur and Thiruvananthapuram, and is now in the process of acquiring the Mumbai and Navi Mumbai International Airports," Adani added.

Shares of SFBs rise after RBI directive

Ravindra Sonavane ravindra.s@livemint.om

MUMBAI

hares of small finance banks (SFBs) surged on Monday after the central bank allowed them to apply for amalgamation with the promoter entities on completing five years of operations.

On Saturday, Equitas Holding Ltd and Ujjivan Financial Services said they would initiate steps following the Reserve Bank of India's (RBI's) approval to file for a scheme of amalgamation of the promoter entity with the respective SFBs.

Ujjivan Financial Services Ltd and Equitas Holding Ltd surged up to 20% each in early trade on Monday. Equitas SFB gained 7.3% while Ujjivan SFB climbed 1.5%.

"This is positive for listed holding companies Ujjivan Finance & Equitas Holding that may complete five years by 3Q-4Q2021 and trade at 40% holding company discount versus value of stake in the bank," wrote Jefferies India in a note to investors. "Some other SFBs in IPO stage can also gain, but AU SFB doesn't have (holding company) structure. IDFC Ltd may indirectly benefit but needs to sell stake in AMC to simplify (holding company) structure"

Equitas Holdings and Ujjivan Financial Services currently hold stakes of 82% and 83% each in Equitas and Ujjivan SFB, respectively.



RBI has allowed small finance banks to apply for merger with the promoter entities.

As per RBI banking licensingrules, a promoter needs to dilute its stake in a bank to 40% within five years from the start of business.

"Further, as SFB's licensing guidelines state that the promoter can decide to exit after a lock-in of 5 years. Thus, this Amalgamation Scheme if implemented will help fulfil the promoter shareholding requirement as well. The investors of the holding company will get the shares of listed SFB through a share swap ratio and the holding companies will thus cease to exist. In this process, the approval of RBI, Sebi and NCLT is required," according to a Motilal Oswal report.

"The Amalgamation Scheme would help unlock significant value for the shareholders of the respective holding companies as the holdco discount narrows," the report



INDUS TOWERS LIMITED

(FORMERLY BHARTI INFRATEL LIMITED)
CIN: L64201HR2006PLC073821
Regd. Office: 901, Park Centra, Sector 30, NH-8, Gurugram, Haryana- 122001 **Tel.:** +91-124-4132600, **Fax.:** +91-124-4109580

Email id: compliance.officer@industowers.com Website: www.industowers.com NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING OF INDUS TOWERS LIMITED AND

E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that: The 15th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Indus Towers Limited (formerly Bharti Infratel Limited) ('Company') will be held through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ('VC/OAVM') on Tuesday, August 3, 2021 at 3.30 P.M. (IST) to transact businesses as set out in the Notice of 15th AGM ('Notice'), ir

compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively In accordance with the Circulars, electronic copies of the Notice and the Integrated Report & Annual Accounts 2020-2021 ('Integrated Report')

have been sent to all the members whose email ids are registered with the Company/ Depository Participant(s)('DP'). The requirement of sending physical copy of Notice & Integrated Report has beer dispensed with vide Circulars. The Notice and the Integrated Report are also available on the website of the Company at www.industowers.com. website of KFin Technologies Private Limited ('KFIN') our RTA at https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx, websites of the stock exchanges i.e. BSE Limited at https://www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at https://www.nseindia.com. The dispatch of Notice and Integrated Report through e-mails has been completed on July 12, 2021.

The statutory registers and documents pertaining to the items of businesses to be transacted at the AGM shall be available for inspection during the AGM in electronic form at https://emeetings.kfintech.com. Members holding shares either in physical form or in dematerialized

form, as on the cut-off date i.e. Tuesday, July 27, 2021, may cast their votes electronically on the Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice through remote e-voting or e-voting system at the AGM. The remote e-voting shall commence on Friday, July 30, 2021 at 09:00 A.M. (IST) and end on Monday, August 2, 2021 at 05:00 P.M. (IST) The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M (IST) on Monday, August 2, 2021. Once vote on a resolution is cast by a member, it cannot be modified subsequently. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

Members may note that the facility for e-voting will also be made available during AGM and those members present in the AGM through VC/OAVM and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system at the AGM. The members who have cast their votes through remote e-voting may also attend the AGN through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

A person, who becomes member of the Company after the Notice has been sent electronically and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, July 27, 2021, may obtain User ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com. However, if a person is already registered with KFIN for e-voting, then the existing User ID and password can be used by them for casting their vote.

The manner of voting electronically by the members is provided in the Notice. The details are also available on the website of the Company at www.industowers.com and on the website of KFIN at

https://evoting.kfintech.com. Members who have not yet registered their email addresses and consequently have not received the Notice and the Integrated Report are requested to get their email addresses and mobile numbers

registered by following the guidelines mentioned in the Notice. Members holding shares in physical form can register their e-mail addresses either at the link provided in Notice i.e https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx or they can write to KFIN at einward.ris@kfintech.com. Members holding shares in dematerialized form are requested to register/update their e-mail addresses with their respective DPs. However, for the limited purpose of receiving the Notice and Integrated Report for the financial year 2020-2021, they may also temporarily register their e-mail addresses at link i.e. https://ris.kfintech.com/clientservices

mobilereg/mobileemailreg.aspx as provided in the Notice.

Procedure for joining the AGM and e-voting process pursuant to SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020, have been provided in detail in the Notice

10.In case of any queries pertaining to e-voting, members may visit FAQs and e-voting user manual available at the download section of KFIN's website at https://evoting.kfintech.com or contact Mr. Raj Kumar Kale, an

official of KFIN at 040-67162222 or at Tel. No. 1800 3094001 (toll free).

1. The members who require technical assistance to access and participate in the AGM through VC/ OAVM may contact the helpline number: 1800 309 4001 (toll free). For Indus Towers Limited

(formerly Bharti Infratel Limited) Samridhi Rodhe **Company Secretary**



Growth is

not just about chasing success. It's also about learning from failures.

Growth is...On.



Follow us:











f mint.live livemint livemint www.livemint.com

V कंपनियां पहली तिमाही में

महंगाई की मारः पैसे ज्यादा दो या कम माल लो

नई दिल्ली | सुनीरा टंडन

महंगाई बढ़ने के बाद भी चिप्स और नमकीन के पैकेट उसी दाम में खरीद रहे हैं तो इस भुलावे में मत रहिए कि वह सस्ते में मिल रहा है। कंपनियां छोटे पैक का वजन घटाकर आपकी जेब हल्की कर रही हैं।

वहीं बड़े पैकेट में मात्रा में कोई बदलाव नहीं करके ज्यादा कीमतें वसूल रही हैं। यानी स्पष्ट संकेत है कि पैसे ज्यादा दो या कम माल लो। ग्राहक किसी भी आधार पर उत्पाद क्यों न खरीदे, उसके खाते में नुकसान ही है।

नई दिल्ली | **एजेंसी**

जानकारी दी गई।

देश का औद्योगिक उत्पादन

(आईआईपी) मई में सालाना आधार

जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह

निचले आधार प्रभाव तथा

विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्रों के

अच्छे प्रदर्शन की वजह से औद्योगिक

उत्पादन बढ़ा है, लेकिन यह अब भी

महामारी-पूर्व के स्तर से नीचे है। राष्ट्रीय

सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की

ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मई

महीने में विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में

34.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसी

तरह खनन क्षेत्र का उत्पादन 23.3

प्रतिशत तथा बिजली का 7.5 प्रतिशत

बढा। एनएसओ के आंकडों के

अनुसार, मई, 2021 में आईआईपी

पिछले साल इसी महीने में यह

90.2 पर था। मई, 2019 में

आईआईपी 135.4 अंक था। आंकड़ों

से पता चलता है कि औद्योगिक उत्पादन

में सुधार हुआ है, लेकिन यह अब भी

मई, 2019 के महामारी पूर्व के स्तर से

नीचे है। मई, 2020 में औद्योगिक

उत्पादन में 33.4 प्रतिशत की गिरावट

116.6 अंक पर रहा।

छोटे पैकेट का बाजार

चिप्स,बिस्किट और नमकीन के छोटे पैकेट का बाजार ज्यादा बड़ा है। इसमें पांच रुपये और 10 रुपये के पैकेट का एक अलग उपभोक्ता वर्ग है जिसकी संख्या अधिक है। ऐसे में इस श्रेणी में दाम बढ़ाने का जोखिम कोई भी कंपनी नहीं लेना चाहती है। एफएमसीजी कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी नें कहा कि इस श्रेणी के उत्पादों को काफी तैयारी के बाद बाजार में उतारा जाता है जिसपर भारी-भरकम खर्च होता है इसमें सस्ते का भी आकर्षण होता है। यदि कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर से उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ सकती है जो महंगा सौदा

20 फीसदी तक हल्के हुए विप्स और बिस्किट के पैकेट

लाभ के लिए मात्रा पर कैंची

आईआईएफएल सिक्योरिटीज के उपाध्यक्ष (कमोडिटी एवं करेंसी) अनुज गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि बीते एक साल में अधिकांश कमोडिटी की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इसके चलते एफएमसीजी कंपनियों की उत्पादन लगात बढ़ी है लेकिन वह कीमत बढाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि कोरोना के कारण बाजार में सुस्ती है। ऐसे में वो कीमत बढ़ाकर जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो उत्पाद को हल्का कर मुनाफा को बरकरार रखना चाहते हैं।

🔰 ज्यादा उपभोवताओं तक पहुंच

इन उत्पादों के वजन में कंपनियों ने की कटौती

पेप्सिको इंडिया के पांच और 10 रुपये में मिलने वाले लेज और कुरकुरे के वजन में कटौती की गई है। पारले प्रोडक्ट लिमिटेड पांच और 10 रुपये वाले बिस्किट का वजन घटा चकी है। वहीं 30 रुपये और 50 रुपये वाले चिप्स के वजन में भी कटौती हुई है। वहीं नमकीन के मामले में 400 ग्राम और एक किलो वाले पैकेट के दाम में इँजाफा हुआ है। बिकानों के निदेशक मनीष अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल 100 रुपये वाले पैकेट का वजन घटाया



गया है। पारले प्रोडक्ट के सीनियर केटेगरी हेड मार्केटिंग कृष्णाराय बुद्धा का कहना है कि दाम बढ़ाने या वजन घटाने के अलावा फिलहाल कोई दूसरा

रसोई का बजट बिगड़ा

देश के कई शहरों में गृहणियों ने हिन्दुस्तान को बताया कि घटी आय के बीच आसमान छूती महंगाई से घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। सब्जियों, खाद्य तेल, फल, रसोई गैस आदि की कीमतों में बढ़ोतरी कोरोना के बाद से हुई है जिससे घर का बजट काफी बढ़ गया है।

पेट्रोल ने लगाई आग

पेटोल-डीजल के दाम छह माह में 25 फीसदी से 40 फीसदी बढ़े हैं। इससे मालभाड़ा 25 फीसदी बढा है। इसका सीधा असर खाने-पीने से लेकर रोजर्मरा के उत्पादों पर हुआ है। पिछले छह माह में टीवी–फ्रीज २० फीसदी तक महंगे हुए हैं। जबिक कार कंपनियां छह माह में दो बार दाम बढ़ा

बिजनेस आपतक

मारुति की गाडियां १५,००० रुपये तक महगी

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को कहा कि उसने स्विफ्ट और अन्य मॉडलों के सीएनजी संस्करण की कीमतों में 15,000 रुपये तक बढ़ोतरी की है। मारुति सुजुकी इंडिया ने शेयर बाजार को बताया कि कच्चे माल की लागत बढ़ने के चलते स्विफ्ट और अन्य सभी सीएनजी संस्करण की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने बताया, उपरोक्त मॉडलों की दिल्ली में शोरूम कीमत में 15,000 रुपये तक वृद्धि हुई है। नई कीमतें आज यानी 12 जुलाई 2021 से प्रभावी हैं। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले स्विफ्ट 5.73 लाख रुपये से 8.27 लाख रुपये में उपलब्ध थी।

एयरटेल की ५जी परीक्षण डॉलर के मुकाबले रूपये में छह पैसे की तेजी में रिकॉर्ड रफ्तार

नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने मुंबई में 5जी फील्ड परीक्षण के दौरान फिनलैंड की कंपनी नोकिया के नेटवर्क उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए एक गिगाबिट प्रति सेकेंड (एक हजार एमबीपीएस) से ज्यादा की रफ्तार दर्ज की।

पिलपकार्ट ने निवेशकों से ३.६ अरब डॉलर जुटाए

नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट ने कहा कि उसने जीआईसी, कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड , सॉफ्टबैंक विजन फंड-2 और वॉलमार्ट की अगुवाई में 3.6 अरब अमेरिकी डॉलर (26,805 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। वित्त पोषण के इस दौर में उसका मूल्यांकन 37.6 अरब अमेरिको डॉलर किया गया।

मुकाबले रूपये की विनिमय दर छह पैसे के लाभ के साथ प्रति डालर 74.58 (अस्थायी) पर बंद हुई। पेटीएम मनी से आसान हुआ आईपीओ में निवेश

नई दिल्ली। मुद्रास्फीति के आंकड़े

आरंभिक लाभ काफी कम हो गया

तथा विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में

सोमवार को अमेरिकी डॉलर के

जारी होने से पहले रुपये का

नई दिल्ली। पेटीएम मनी ने सोमवार को एक नई सुविधा शुरू की जिससे उपयोगकर्ता बाजार में किसी कंपनी के आईपीओ के खुलने से पहले ही उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पेटीएम मनी इस तरह की सेवा देने वाला भारत का पहली डिजिटल ब्रोकर है। कंपनी को उम्मीद है कि इस छोटे निवेशकों को लाभ होगा।

देश की जीडीपी 15,000 अरब डॉलर की होगी : अडाणी

नई दिल्ली। अरबपित उद्योगपित गौतम अडाणी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बेहतर चक्र की शुरुआत में है और अगले दो दशक में यह 15,000 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगी। महामारी से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 2,890 अरब डॉलर थी। महामारी की वजह से कुल अर्थव्यवस्था को सात प्रतिशत से अधिक का नुकसान हुआ है। अडाणी ने कहा कि भारत के अगले चार साल में 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को लेकर सवाल उठाए जाते हैं लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत इसे हासिल कर लेगा।

औद्योगिक उत्पादन में बड़ा उछाल

विनिर्माण क्षेत्र के दम पर मई में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 29.3 फीसदी बढ़ा

दूसरी लहर से निपटने में मिली कामयाबी प्राइमस पार्टनर्स के प्रबंध निदेशक श्रवण शेट्टी ने कहा, पर 29.3 प्रतिशत बढा है। सोमवार को मई में आईआईपी 29.3 प्रतिशत बढ़ा है जिससे पता चलता है कि दसरी लहर के प्रभाव से निपटने के लिए आपूर्ति श्रृंखला ने पिछले साल की

तुलना में खुद को अधिक ढाला है। इससे पहली तिमाही अच्छी रहने की उम्मीद है, क्योंकि जून महीने के उच्च चक्रीय आंकड़े भी सकारात्मक हैं। मार्च से औद्योगिक

उत्पादन प्रभावित रहा

कोरोना महामारी से पिछले साल मार्च

से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित रहा

है। उस समय इसमें 18.7 प्रतिशत

2020 तक नकारात्मक दायरे में रहा

था। आर्थिक गतिविधियों शुरू होने के

साथ सितंबर में कारखाना उत्पादन

एक प्रतिशत बढ़ा था। अक्टूबर में

आईआईपी ४.5 प्रतिशत बढा था।

नवंबर, २०२० में कारखाना उत्पादन

उसके बाद दिसंबर, 2020 में यह

२ .२ प्रतिशत बढ़ा था।

में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

की गिरावट आई थी। यह अगस्त.

मोतीलाल ओसवाल फाइनेशियल सर्विसेज के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता ने कहा कि जून में भी औद्योगिक उत्पादन इसी स्तर पर रहने की संभावना है।

साल के शुरुआत से

सुस्ती देखने को मिली

इस साल जनवरी में आईआईपी में

0.6 प्रतिशत तथ फरवरी में 3.2

प्रतिशत की गिरावट आई। मार्च में

एनएसओ ने अप्रैल के आईपीओ

के पूरे आंकड़े जारी नहीं किए थे।

गिरावट आई थी। उस समय खनन

मई. २०२० में विनिर्माण क्षेत्र के

उत्पादन में 37 .8 प्रतिशत की

क्षेत्र का उत्पादन २०.४ प्रतिशत

घटा था। वहीं बिजली क्षेत्र का

उत्पादन १४.९ प्रतिशत नीचे

यह २४.१ प्रतिशत बदा।

34.5 फीसदी बढ़ा विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन मई में

क्षेत्र की हिस्सेदारी आईआईपी में

फीसदी खनन और बिजली उत्पादन 7 .5 प्रतिशत बढ़ा

98_2 फीसदी की वृद्धि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के मैन्युफैक्चरिंग में

अनलॉक के साथ तेजी से बढा उत्पादन

निवेश का संकेतक कहे जाने वाले पुंजीगत सामान क्षेत्र का उत्पादन मई 2021 में 85 .3 प्रतिशत बढ़ा। एक साल पहले समान महीने में इसमें 65.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। समीक्षाधीन महीने में टिकाऊ उपभोक्ता सामान का उत्पादन ९८ .२ प्रतिशत बढा, जबिक मई, 2020 में क्षेत्र का उत्पादन ७०.३ प्रतिशत घटा था। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान का उत्पादन मई में 0.8 प्रतिशत बढ़ा। एक साल पहले समान महीने में इसमें 9.7 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

को जल्द मिलेगी राहत

पीएमसी बैंक के ग्राहकों

फैसला

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

वित्तीय अनियमितता की जद में आए पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक को जल्द ही एक लघ् वित्त बैंक अधिग्रहण करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को उच्च न्यायालय में यह आरबीआई ने न्यायालय को बताया

कि पीएमसी बैंक के जल्द अधिग्रहण के लिए एक लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अब इस बारे में आरबीआई को हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त तय की है।

आरबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने पीठ को बताया कि आरबीआई ने सेंट्रम फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी है कि वह एक लघु वित्त बैंक स्थापित करेगा जो बहुत जल्द पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा।

जयंत भूषण ने कहा कि यह प्रक्रिया

पीएमसी के खाताधारकों

PMC BANK

को हो रही परेशानी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने

उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाले कार्यकर्ता बेजॉन कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी हैं। मिश्रा ने अर्जी में आरबीआई को पीएमसी बैंक के खाताधारकों को शिक्षा, विवाह और गंभीर आर्थिक हालात पर भी विचार करें और पैसा निकालने का आदेश देने का निर्देश दें। अभी खाताधारकों को सिर्फ गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ही पैसे निकालने की अनुमति है।

लगभग पुरी होने वाली है। अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि इससे बैंक के ग्राहकों को हो रही परेशानी कम होगी जो अभी अपना रुपया नहीं निकाल पा

(पूर्व में भारती इंफ्राटेल लिमिटेड) सी.आई.एन.: L64201HR2006PLC073821 पंजी. कार्यालयः 901, पार्क सेंट्रा, सेक्टर 30, एनएच-8,

गरूग्राम. हरियाणा- 122001 दूरभाषः +91-124-4132600, फैक्सः +91-124-4109580 ई-मेलः <u>compliance.officer@industowers.com</u> वेबसाईटः <u>www.industowers.com</u>

इंडस टावर्स लिमिटेड

इंडस टावर्स लिमिटेड की 15वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना व <u>ई-वोटिंग जा</u>नकारी

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम 2015 के साथ पितत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी साधारण परिप सं. 14 / 2020 दिनांक ८ अप्रैल. 2020. साधारण परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, साधारण परिपत्र सं. 20 / 2020 दिनांक 05 मई, 2020 और साधारप परिपत्र सं. 02 / 2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1 /CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 तथा जारी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनां 15 जनवरी, 2021 (एकीकृत रूप से 'परिपत्रों') के अनुपालन में, इंडस टावर्स लिमिटेड (पूर्व में भारती इंफ्राटेल लिमिटेड) ('कंपनी') के सदस्यों की 15वीं वार्षिक साधारण सभ 'एजीएम') मंगलवार, 03 अगस्त, 2021 को दोपहर 3.30 बजे (भा.मा.स.) एजीएम की सूचना ('सूचना') में निर्धारित करोबार को सम्पादित करने के लिए, वीडियो क्रान्फ्रेंसिग / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('वीसी / ओएवीएम') से आयोजित की

परिपत्रों के अनुपालन में सूचना और एकीकृत रिपोर्ट व वार्षिक खाते 2020-202 (''एकीकृत रिपोर्ट'') की इलैंक्ट्रानिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई-मेल पते कंपनी / डिपोज़िटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं सूचना व एकीकृत रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को परिपत्रों वे अंनुसार समाप्त कर दिया गया है। सूचना व एकीकृत रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइत www.industowers.com, केफिन टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड ('केफिन') की वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx,</u> और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः https://www.bseindia.com व https://www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। ई-मेल द्वारा 15वीं एजीएम की सूचना एवं एकीकृत रिपोर्ट का प्रेषण 12 जुलाई, 2021 को पूरा कर लिया गया है।

वैधानिक रजिस्टर और एजीएम की सूचना में निर्धारित कारोबार से संबंधित दस्तावेज जांच के लिए एजीएम के दौरान इलैक्ट्रानिक रूप में https://emeetings.kfintech.com

u. निर्दिष्ट (कट-ऑफ़) तिथि अर्थात् मंगलवार, 27 जुलाई, 2021 तक भौतिक या डीमैट क्तप में शेयर रखने वाले सदस्य रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से सूचना में वर्णित साधारण व विशेष व्यापार पर इलैक्ट्रानिक रूप से अपने वोट डाल संकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग की शुरूआत शुक्रवार 30 जुलाई, 2021 को सुबह 9.00 बजे (भा.मा.स.) होगी और सोमवार, 02 अगस्त, 2021 को शाम 05.00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। सोमवार, 02 अगस्त, 2021 को शाम 05.00 बजे (भा.मा.स. के बाद रिमोट ई-वोटिंग की सविधा मौजद नहीं होगी। एक प्रस्ताव पर एक बार सदस्य द्वारा वोट डाले जाने पर, उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ़ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम सुविधा प्राप्त

सदस्य ध्यान दें कि ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध होगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपने वोट नहीं डाले हैं और ऐसा करने से बाधित नहीं हैं. एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के योग्य होंगे। रिमोव ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट डाल चुके सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

 वह व्यक्ति जो सूचना के इलैक्ट्रानिक प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बनता है. और कट-ऑफ़ तिथि अर्थात् 27 जुलाई, 2021 तक शेयर धारण करता है, वह evoting@kfintech.com पर अनुरोध भेजकर यूज़र आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि ई-वोटिंग के लिए केफिन के साथ पहले से ही पंजीकृत व्यक्ति अपने मौजूदा

युजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग अपने वोट डालने के लिए कर सकता है। सदस्यों द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से वोट डालने का तरीका सूचना में दिया गया है जिसका विवरण कंपनी की वेबसाइट www.industowers.com और केफिन की

वेबसाइट <u>https://evoting.kfintech.com</u> पर भी उपलब्ध है। . जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं और परिणामस्वरूप जिन्हें सूचना व एकीकृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, वे सूचना में वर्णित निर्देशों को अपनाकर

अपने ई-मेल पते और मोबाइल नंबर पंजीकृत करा सकते हैं।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य सूचना में दिये गये लिंक <u>https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx</u> যা केफिन के ई-मेल पते einward_ris@kfintech.com पर दस्तावेज भेजकर अपने ई-मेल पते पंजीकत करा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने संबंधित डीपी के साथ अपने ई-मेल पते रजिस्टर्ड करा सकते हैं या केवल वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए सूचना और एकीकृत रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए, वे सूचना में वर्णित प्रक्रिया को अपनाकर अपने ई-मेल पते अस्थायी रूप से दिये हुए लिंक https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx प्र

). सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर 2020 के अनुपालन में, एजीएम में शामिल होने की और ई-वोटिंग की प्रक्रिया सूचना में विस्तार से दी गई है।

10.ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, सदस्य केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध एफ.ए.क्यू. और ई-वोटिंग यजर पस्तिका देख सकते हैं या श्री राज कमार काले. केफिन अधिकारी को टेली. नं. 040- 67162222 या 1800 309 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं। ।1. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने में तकनीकी सहायता प्राप्त करने

स्थान : गुरूग्राम

दिनांक : 12 जुलाई, 2021

के लिए सदस्य हैल्पलाइन नंबर 1800 309 4001 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं इंडस टॉवर्स लिमिटेड कृते

(पूर्व में भारती इंफ्राटेल लिमिटेड) हस्ता. 🗸 -समृद्धि रोढ़े

नए पोर्टल पर रोजाना ४० हजार रिटर्न दाखिल हो रहे

नई दिल्ली | **सौरभ शुक्ल**

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि नए आयकर पोर्टल पर ई-कार्रवाई के तहत अभी तक कुल 24,781 प्रतिक्रियाएं मिली हैं, और रोजाना 40,000 से अधिक आईटीआर दाखिल हो रहे हैं।

सीबीडीटी ने साथ ही कहा कि वह नई साइट पर आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर कोशिश कर रहा है। हालांकि, वित्त मंत्रालय के निर्देश के तीन हफ्ते बाद भी नए आयकर पोर्टल की हालत में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। टैक्स से जुड़े कामकाज को देखने वाले चार्टर्ड आकाउंटेंट्स की मानें तो नई आयकर वेबसाइट पर लॉग इन से

• सीबीडीटी ने एक बयान में दी यह जानकारी

• तकनीकी गड़बड़ियों को युद्ध

टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के चेयरमैन जफर उल्ला सत्तार खान ने हिन्दुस्तान को बताया है कि पोर्टल पर रिटर्न दाखिल करने में तीन घंटे तक लग जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही तरीके से दाखिल ही हुआ हो।

डीजल तीन माह बाद सस्ता हुआ

नई दिल्ली। पेट्रोल के दाम सोमवार एक बार फिर बढकर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए जबकि डीजल करीब तीन महीने बाद सस्ता हुआ।

दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 101 रुपये और मुंबई में 107 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। आईओसी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल का मूल्य 28 पैसे बढ़कर 101.19 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल 15 अप्रैल के बाद पहली बार 16 पैसे सस्ता होकर 89.72 रुपये प्रति लीटर रहा।

एलआईसी में विनिवेश जल्द

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि वित्त मंत्री की अगुवाई वाली एक समिति एलआईसी में हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा तय करेगी।

इसे भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम कहा जा रहा है। सूत्रों का कहना है किआईपीओ में 10 फीसदी हिस्सेदारी पॉलिसीधारकों के लिए अनिवार्य रूप से रखी जाएगी

स्तर पर दूर करने की कोशिश

लेकर रिटर्न दाखिल करना बड़ी समस्या है। यही नहीं एक बार दी गई तमाम जानकारी पोर्टल पर सेव करने के बाद तकनीकी दिक्कत के चलते गलत हो जाती है।

टैक्स विशेषज्ञ कर्नाटक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लि.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

विद्युत पारेषण खण्ड मुरादनगर के अंतर्गत ई-निविदा संख्या-टी-09/(कार्य)/2021-22 हेतु निविदा ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है निविदा शल्क, धरोहर राशि आदि जानकारी हेत वेबसाइट www.etender.up.nic.in प लॉग ऑन करें। निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार अधिशासी अभियंता विद्युत पारेषण खण्ड मुरादनगर के पास सुरक्षित रहेगा तथा टेण्डर निरस्त होने की स्थिति में निविदा शुल्क वापस नहीं की जाएगी अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी एक या पण निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

अधिशासी अभियंता, विद्युत पारेषण खण्ड मुरादनगर, मोबाइल नं0: 7253888445 'राष्ट हित में ऊर्जा बचाएं''। पत्रांक 608/वि0पा0ख0मु0 दिनांकः 12.07.2021

📵 पूर्वोत्तर रेलवे ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से एवं उनके लिये

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेत् ऑनलाईन, ई-टेण्डरिंग के माध्यम से खुर्ल निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूप विवरण, नियम एवं शर्ते भारतीय रेल की वेबसाई www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती है। **क्रम संख्याः 01,** ई-निविदा संख्याः 5021531 निविदा खुलने की तिथिः 09.08.2021 सामग्री का विवरणः सप्लाय, इंस्टालेश एण्ड कमिशनिंग ऑफ पैसेंजर इलेवेट (लिफ्ट) विदाउट मशीन रूम सुटेबल फार 15 पर्सन। मांगी गई मात्राः 02 अदद। बयान

वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मुजाधि/एस-24 वाराणसी

यात्री सुविधा संबंधित शिकायत हेतु मो. नं.: 09794845955 पर एसएमएस करें

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0

प्रतिष्ठित फर्मौं/एजेंसियों से www.etender.up.nic.in के माध्यम से अल्पकालीन ई-निविदा दिनांक 27.07.2021 समय 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है जिसका प्रथम भाग उसी दिन समय 14.00 बजे खोला जाएगा। 1. ई-निविदा सं. 12/2021-22; धरोहर राशिः 10000.00 निविदा राशिः 1180.00 (जीएसटी सहित) विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, दादरी के कार्यक्षेत्र मे जमा योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों को कराने हेतु बाह्य एजेंसी नियुक्त करने से सम्बन्धित कार्य। 2. ई-निविदा सं. 13/2021-22: धरोहर राशिः 6000.00. निविदा राशिः 1180.00 (जीएसटी सिहत) विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, दादरी के कार्यक्षेत्र में बाह्य एजेंसी के मध्यम से एमरजेंसी ब्रेकडाउन अटेण्ड करने एवं परिवर्तकों की ढुलाई करने से सम्बन्धित कार्य। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण तथा संशोधन/निविदा विस्तार की जानकारी वेबसाइट www.pvvnl.org तथा www.etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरए मण्डल-द्वितीय, नोएडा। विद्युत हेल्पलाईन 1800-180-3002 (मेरठ), 1800-180-8752 (लखनऊ)। ''राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें''। पत्रांकः 723/वि0न0वि0मं.-द्वि./नोएडा/

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचनाः निम्नलिखित कार्य हेतु अल्पकालीन ई-टेंडरिंग के माध्यम से ई-निविदा आमंत्रित है:- (1) निविदा विशिष्टीकरण संख्या: 06/वि जा वि ख /गा बाद/2021-22:- 33/11 के.वी. उपकेंद्र, सेक्टर-08 नोएडा पर स्थापित नियंत्रण कक्ष का विस्तारीकरण एवं अन्य जानपदीय कार्य। कार्य अवधिः २ माहः निविदा मल्यः रु. 1180.00. धरोहर धनराशि रु. 6,000.00 । निविदा खुलने की दिनांक 28.07.2021 । निविदा भाग-1 (निविदा राशि धरोहर राशि), निविदा भाग-2 (टेक्नो कॉमर्शियल शर्तें एवं Credentials) तथा निविदा भाग-3 (प्राईस बिड) निविदा खुलने की तिथि को 14.00 बजे तक ई-टेन्डरिंग वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर अपलोड की जायेगी। निविदा भाग-1 एवं भाग-2 उसी दिन 16.00 बजे के बाद ऑनलाइन खोला जाएगा। कृपया वेबसाइट www.pvvnl.org एवं www.etender.up.nic.in पर विस्तार में सभी जानकारी एवं विवरण/डाउनलोड तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/विस्तार के लिए निविदा खुलने की दिनांक से पहले तक लॉग ऑन करें। कृपया विस्तृत जानकारी हेतु www.pvvnl.org/www.etender.up.nic.in देखें। अधिशासी अभियंता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, हाईडिल कालोनी, कविनगर, गाजियाबाद हेल्प लाईन-09412207451 । ''राष्ट्र हित में बिजली बचायें''। पत्रांक 544/वि.जा.वि.खं./गा.बाद/टी-2 दिनांक- 12.07.2021



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA www.rbi.org.in

भारतीय रिज़र्व बैंक के जन जागरूकता अभियान के लिए मीडिया खरीद $_{\it I}$ विज्ञापन एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए बोलियों का आमंत्रण

संचार विभाग (डीओसी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), 9वीं मंजिल, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001, आरबीआई के बहुमाध्यम (मल्टी-मीडिया), बहुभाषी, अखिल भारतीय जन जागरूकता अभियानों के लिए मीडिया खरीद/विज्ञापन एजेंसियों को पैनल में शामिल करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक बोली लगाने वालों को निविदा दस्तावेज के अनुसार अपनी बोलियां ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<u>https://rbi.org.in</u>) पर 'निविदाएं' खंड और एमएसटीसी की वेबसाइट (<u>https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi/</u>) से डाउनलोड किया

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

निविदा आरंभ करने की तिथि: सोमवार, 12 जुलाई 2021 को 1600 बजे बोली आरंभ होने की तिथि: सोमवार, 12 जुलाई 2021 को 1600 बजे बोली बंद होने की तिथि: सोमवार, 02 अगस्त 2021 को 1500 बजे बोली खोलने की तिथि और समयः सोमवार, 02 अगस्त 2021 को 1600 बजे नोट: उपरोक्त निविदा के संबंध में किसी भी अतिरिक्त परिशिष्ट/शुद्धिपत्र/तिथियों को बढ़ाने, बोली लगाने वालों के प्रश्नों का स्पष्टीकरण/ उत्तरों को केवल बैंक की वेबसाइट (<u>www.rbi.org.in</u>) पर रखा जाएगा तथा प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी

पैसे का वादा करने वाले ई-मेल/एसएमएस/टेलीफोन द्वारा धोखा न खाए

हायेवाड़ा करन स पहल पूरा जाय-पड़ताल कर जा जना जनज सम्बंधी **या अन्य** अभिदाता जो इस अखबार में प्रकाशित किसी विज्ञापन **जैसे टॉवर, नौकरी, ऋण सम्बंधी या अन्य** ²⁰⁰⁸ की गक्तन के जंदर्स में कोर्द राशि भेजता है या किसी चिकित्सीय सलाह पर कोई कार्यवाही जानपत्ता जा इस जबबार न अंगारित जिल्ला विश्वान जो ति चित्र, नावरा, ऋण सम्बा या जन्य किसी भी प्रकार के संदर्भ में कोई राशि भंजता है या किसी चिक्तिस्वीय सलाह पर कोई कार्यवाही या खर्च करता है या कोई वचन देता है तो ऐसा वह अपने स्वविवेक, बृद्धि तथा जोखिम पर करेंगे। कम्पनी, प्रकाशक या जसका कोई कर्मचारी विद्यापनाता हारा जनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन नहीं देते तथा ऐसे विज्ञानों पर विश्वास करके किसी व्यक्ति को हुई किसी क्षति, हानि, परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई मिनिरत्न श्रेणी–I, सीपीएसई (भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन) CIN: U22213DL2006G01144763, फोन: 07272-255222, फेक्स: 07272-255111 ईमेल: bnpdewas@spmcil.com, वेबसाईट: www.bnpdewas.spmcil.com

निम्नलिखित सामग्री / कार्य के लिए मोहरबंद निविदा विहित प्रपत्र में आमंत्रित है।

1. 6000016475/BNP/P/IF/Tung Oil/2021/OT - Tung Oil निविदा प्रपत्र दस्तावेज और अन्य विवरण के लिए **मुख्य महाप्रबंधक, बैंक नोट प्रेस,** देवास (म.प्र.) से संपर्क किया जा सकता हैं और हमारी वेबसाईट http://bnpdewas.spmcil.com को देखा जा सकता है । आवश्यकता होने पर समस्त अपडेट जानकारी संशोधन एंव त्रुटि संशोधन आदि उक्त वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिये जायेगें । इनका कोई भी प्रकाशन समाचार पत्र या अन्य मीडिया के माध्यम से

संयुक्त महाप्रबन्धक (क्रय), कृते मुख्य महाप्रबन्धक

नवीन ओखला औद्यौगिक विकास प्राधिकरण

ई-निविदा आमंत्रण सुचना

अर्ह निविदाकारों से निम्न जॉब संख्याओं हेत् ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, जिन्हे नेम्नानुसार तिथियों तक अपलोड किया जा सकता है एवं प्राप्त ई-निविदाओं को उनके सम्मुखं दर्शायी गई तिथियों पर खोला जाएगा। निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तै नौएडा / प्राधिकरण की वेबसाइट <u>www.noidaauthorityonline.com</u> एवं वेबसाइट

1. 80 / व0प्र0जल- । । / ई0टी0 / 20-21, सीवर अनुरक्षण (सैक्टर-79 की सीवर लाईन को मुख्य ट्रंक सीवर लाईन से मिलान करने का कार्य), नौएडा

उपरोक्त निविदाओं को दिनांक 20 / 07 / 2021 को 5:00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। प्राप्त ई-निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन दिनांक 22/07/2021 को 11:00 बजे खोली जाएंगी।

कार्यालयः सैक्टर-37, नौएडा नौएडा स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा

25500 पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचनाः ई-निविदा संख्या :-01/2021-22/E.D.C./GZB निविदा

शुल्क :- रु. 1180.00, धरोहर धनराशि :- रु. 4500.00, कार्य का विवरण :- विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर गाजियाबाद के कार्य क्षेत्र में 12 नं नए विद्युत संयोजन पूर्ण जमा मद में निर्गत करने हेतु 11 के.वी.ए./एल.टी. लाईनों एवं 25/100 के.वी.ए. उपसंस्थान के निर्माण कराने हेतु संबंधित कार्य। ई-निविदा संख्या :-02/2021 22/E.D.C./GZB निविदा शुल्क :- रु. 3540.00, धरोहर धनराशिः रु. 37250.00, कार्य का विवरणः विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अंतर्गत विद्युत वितरण खण्ड-मुरादनगर के कार्यक्षेत्र 01 नग नया संयोजन 175 किलोवाट पूर्ण जमा योजना मद में निर्गत करने हेतु 1 के0वी0ए0/एल0टी0 लाईनों एवं 25/100 के0वी0ए0 उपसंस्थान के निर्माण कराने हेतु संबंधित कार्य। ई-निविदा संख्याः 03/2021-22/E.D.C./GZB निविदा शुल्कः रु. 3540.00, धरोहर धनराशिः रु. 39800.00, कार्य का विवरणः विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद के अधीन विद्युत वितरण खण्ड, मुरादनगर के अन्तर्गत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम हेतु 50 एम0वी0ए0 क्षमता का नय संयोजन जमा योजना में अवमुक्त करने के लिए 220 के0वी0ए0 उपसंस्थान मुरादनगर से लाईन के निर्माण (सामग्री सहित) हेतु संबंधित कार्य पूर्ण जमा योजना मद में TURNKEY आधार कराए जाने का कार्य। उपरोक्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है जिसे https://etender.nic.in पर दिनांक 27.07.2021 को दोपहर 14.00 बजे तक भरा जा सकता है तथा दिनांक 28.07.2021 को दोपहर 14.00 बजे एवं उसके पश्चात खोल जायेगा। निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम रं पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं0 - 0180002100028563 (IFSC PUNB0018000) में पृथक रूप से जमा कराकर बैंक जमा का साक्ष्य यथा योज्य यु0टी0आर0 सं0, पे-इन-स्लिप के प्रति अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ निविदा के प्रथम भाग में अपलोड किया जाना आवश्यक है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये समस्त अथवा किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। कार्य की कुल मात्रा, निविदा विशिष्टीकरण व अन्य नियम एवं शर्तें अथवा निर्धारित तिथि के विस्तार तथा शद्धि पत्र से संबंधित सचना केवल निगम की वेबसाइट www.pvvnl.org तथा https://etender.up.nic.in पर डाली जाएगी अतः स्वयं को अपडेट रखने के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित देखें। ह0/- अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, ''राष्ट्र हित में बिजली बचायें'' पत्रांक 539/वि0वि0मं0/गा0बाद/ दिनांकः 12.7.2021

बैंक नोट प्रेस, देवास (म.प्र.) 455 001 (आईएसओ: 9001 एवं आईएक्योर्ट 14000 व

मुख्य प्रशासनिक भवन , सैक्टर–6 , नौएडा , गौतमबुद्ध नगर (७०प्र०) Website: www.noidaauthorityonline.com

https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। किसी परिवर्तन, संशोधन व अतिरिक्त सूचनाओं

के लिए उक्त वेबसाइट देखते रहें। लागत- रू० 31.64 लाख.

04 / व0प्र0जल- । । / ई0टी0 / 21-22, विभिन्न सेक्टरों में रिबोरिंग एवं क्लोरीनेशन प्लान्ट (नलकूप सं0 19/25, 18/25 एवं 13/25 की रिबोरिंग), नोएडा लागत- रू0 89.56 लाख.

(ए०के० वरूण) वरिष्ठं प्रबन्धक (जल)-।